

कक्षा - चौथी, विषय - हिंदी

पाठ - उलटा पुलटा,

नाम ----- विभाग ----- अनुक्रमांक ----- दिनांक -----

प्रश्न.1. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

चींटी गिरती, मकड़े गिरते
गिरगिट गिरते और सँभलते,
गिरने पर वे साहस खोकर
कभी न अपनी आँखे मलते
गिरने और पिछड़ने पर
जो हिम्मत खोते पछताते हैं ,
धूल झाड़ जो तुरंत सँभलते
वे जीवन में सुख पाते हैं ।

क. उपर्युक्त कविता के कवि और कविता का नाम लिखिए ।

ख. चींटी, मकड़ी, गिरगिट गिरकर सँभल जाते हैं। इस कथन द्वारा कवि हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं?

ग. जीवन में कैसे व्यक्ति सफलता पाते हैं ?

घ. हिम्मत खोने वाले को जीवन में किन - किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?






प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिह्न लगाइए ।

पतग , बासुरी , पहुचना , बास , मै , सभलते , अभावो , लाठिया

प्रश्न 3. आपके जीवन में कभी कोई समस्या आई है ? आपने उस समस्या का सामना कैसे किया ?

परिभाषा :- किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है ।

जैसे कि:- मनीष , कुतुबमीनार, नदी, छात्र , हरियाली , मिठास , बचपन,



अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक के लिए दो - दो नाम लिखिए :-

	व्यक्ति	वस्तु	स्थान	भाव
1				
2				